

# JINDAL PHOTO LIMITED

---

JPL/SECT/JULY25/75

July 10, 2025

<b>The Listing Department</b> <b>National Stock Exchange of India Limited</b> Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1 Block – G, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai –400051. NSE Scrip Code: JINDALPHOT	<b>The Department of Corporate Services</b> <b>The BSE Limited</b> 25, PJ Towers, Dalal Street Mumbai – 400001. BSE Scrip Code:532624
--	---

**Subject: Disclosures under Regulation 30 & 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015**

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 & 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 we are submitting herewith copy of Public Notice published on July 10, 2025 in the Financial Express, All Editions (English) and Jansatta, Delhi Editions (Hindi) interalia stating about dispatch notice of 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting and book closure period.

This is for your kind information and records.

Thanking you

**For Jindal Photo Limited**

MUKTA  
SHARMA  
Digitally signed  
by MUKTA  
SHARMA  
Date: 2025.07.10  
15:39:50 + 05'30'

**Mukta Sharma**  
**Company Secretary**  
**M. No: F9806**

**Encl: As above**



## 10-YEAR PROGRAMME OPENS DOORS FOR TALENT

# UAE's Golden Visa scheme glitters with promise for Indians

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, July 9

**IN LINE WITH** its vision to become an engine of growth and diverting from an oil-based economy, the United Arab Emirates (UAE) has restructured its visa programme to offer renewable residency of up to 10 years for investors, entrepreneurs, scientists, doctors, athletes and students.

The UAE's "Golden Visa" programme provides talented and high-net-worth Indians and other nationalities the opportunity of long-term residency in the Gulf nation, UAE officials said.

One of the most significant aspects of the government-regulated visa programme is that the applicants do not require a sponsor for the residency, unlike other expats working in the country, they said.


The UAE is a favourite destination of Indians looking for greener pastures, and this provision in the Golden Visa programme will be helpful to those looking at long-term stay in the Gulf nation, according to strategic affairs experts. The Golden Visa initiative has been rolled out as part of the restructuring of the UAE's visa programme over the years.

The Indian diaspora of approximately 3.5 million is the largest foreign community in the UAE, constituting roughly about 35% of the country's population.

There has been a significant upswing in bilateral trade and people-to-people ties after New Delhi and Abu Dhabi inked an ambitious comprehensive economic

### DESTINATION DUBAI

- Programme offers long-term residency in Gulf nation to talented & high-net-worth individuals
- The UAE is a favourite choice for Indians seeking better opportunities
- The 3.5 mn strong Indian diaspora makes up about 35% of the UAE's population
- Bilateral trade and ties surged after India, UAE signed a comprehensive pact in 2022



partnership agreement in 2022. Under the scheme, the UAE government grants Golden Visas for distinguished contributions in fields such as business, science, medicine, art, culture, media, and sport, the officials cited above noted.

The scheme provides for granting a long-term, renewable residence visa valid for five or 10 years without needing a sponsor. The visa holders will have the privilege of staying outside the UAE for more than the usual period of six months.

The visa holders will also be able to sponsor their family members, including spouses and children, regardless of their age, as per the provisions. The scheme also allows family members of a Golden Visa holder to stay in the country for the permitted duration if the primary holder of the Golden Visa passes away.

For investors to get a Golden Visa, an investment of AED (UAE Dirham) 2 million (about ₹4.67 crore) in a UAE-accredited investment fund would be a primary require-

ment.

Alternatively, a submission of a valid commercial licence or industrial licence and a memorandum of association stating that the investor's capital is not less than AED 2 million would also entail eligibility for a Golden Visa.

The applicants will also need to submit a letter from the UAE's Federal tax Authority stating that the investor pays the government no less than AED 2,50,000 annually, according to the provisions.

Owners of a property or a group of properties may also be granted a Golden Visa for a period of five years, without a sponsor, subject to the condition that he or she owns real estate whose value is not less than 2 million dirhams, according to the provisions.

The India-UAE bilateral ties have been on an upswing in the last few years.

Following the landmark visit of Prime Minister Modi to the UAE in August 2015, bilateral relations between the two countries were elevated to a Comprehensive Strategic Partnership.

● From Leeds to Birmingham, momentum may turn again at Lord's

SANDEEP DWIVEDI  
London, July 9

**UNFILTERED EXCITEMENT** to watch Shubman Gill bat, unequivocal anticipation to witness Jofra Archer's return to bowl. The series level, no clear patterns or obvious favourites. The India-England Test at Lord's isn't a hard sell anyway but this one has characters, context and an unusual chaos to manage last-minute tickets.

India and England come to Lord's for the third Test with a mixed taste in the mouth—having alternately experienced a bitter defeat and sweet success. It can be argued that India, after their 336 run-win in the second Test, have an edge. So did England after India's Headingley heartbreak in the opening Test. But they couldn't make it 2-0.

This is a series of new beginnings and teams moving on from the past. This is also a series that busts the momentum myth. As England might have realised, nosing ahead proved to be a momentary high. In this Wimbledon season, the home team's 1-0 lead proved nothing more than 'advantage'



Indian cricket team at a practice session at Lord's Cricket ground in London on Wednesday

that got negated by a quick 'deuce'. The visitors came up with a resounding return winner pretty quickly.

India needs to be careful, it could very well be 'deuce' again. England can go for the lines or India are known to commit unforced errors. England faces a similar dilemma that confronted India before the second Test. Which spinner do they play? After hyping the 21-year-old off-spinner Shoaib Bashier, there has been a sudden change of heart. When Basheer foxed Rishabh Pant with a subtle

change of pace and flight and got him caught at long-on, he was seen as a quick learner taking rapid strides towards greatness. He did take a few wickets but conceded lots of runs.

Now, they are asking that one question that all Test-specialist bowlers dread these days: Can he bat? No, he can't. That means he awaits the same fate as Kuldeep Yadav, being on drinks duty. Washington Sundar's wicket of Ben Stokes on the final day of the last Test has sealed the spot for him.

Basheer's possible replace-

ment could be all-rounder Jacob Bethell. IPL enthusiasts would remember him as the efficient left-arm spinner who bowled in the powerplay and played smashing cameos as the floater top of the order.

This is a strange series, that at least from the scoreboard, looks like a run-making race but also provides those limited periods of play when the bowlers get the spotlight. And it is those short phases when wickets fall in clumps—after unending hours of dominating batting—that decide the game.

Refer to those pulse-racing spells of Akash Deep and Mohammed Siraj. If the questionable reading of pitches by experts is to be believed, Lord's will be consistently kind to bowlers, unlike the unpredictable moodiness of Headingley and Edgbaston. From a distance, the pitch looks brownish green—the ambiguous colour code that comes with the promise of both runs and wickets.

The return of Jasprit Bumrah, and the anticipation to watch him bowl with Siraj and Akash Deep, is one reason for the usual queue from St John's Wood tube station to Lord's getting longer. Like everything, this too comes with a dilemma. Who will bowl from which end?

It is said, first timers at Lord's take time to adjust to the slope that cuts the ground horizontally. In case one walks from point to fine-leg, with the bowler bowling from pavilion end, it's all downhill with the storied surface of the hallowed ground sinking on one side.

India needs to be prepared. They need to remind themselves that winning momentum is a myth. Recall the start of the opening BGT Test at Perth. It was the game the then captain Rohit Sharma had missed and the team was led by Bumrah. Bumrah took 5 wickets, there were 100s from Jaiswal and Virat Kohli and India won the Test.

# M&A, PE deal value falls 48% in June qtr: GTBharat

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, July 9

**MERGER & ACQUISITION** and private equity deals declined sharply by 48% in value terms to \$17 billion in April-June compared to the previous quarter due to mounting global uncertainties and a cautious investment climate, according to consultancy firm Grant Thornton Bharat.

In volume terms, mergers and acquisitions (M&A) and PE deals dropped by 13% to 582 in the second quarter of 2025

compared to the first quarter.

India's M&A and private equity landscape experienced a significant slowdown in April-June 2025, with deal volumes and values both taking a hit due to mounting global uncertainties and a cautious investment climate, GTBharat said.

A total of 582 transactions (including IPOs and QIPs) amounting to \$17 billion were reported during the June quarter. This marks the lowest quarterly deal value since Q2 2023. After excluding public market activity, 554 deals were



recorded, with a combined value of \$12.8 billion.

The decline is attributed to ongoing geopolitical tensions, including the Iran-Israel con-

flict, policy uncertainties surrounding the Trump presidency, the Russia-Ukraine war, and surging gold prices, which collectively dampened investor sentiment.

"Despite the slowdown, the sustained momentum in private equity investments, the emergence of new unicorns, and a promising uptick in public market activity towards the quarter-end are encouraging indicators. The quarter witnessed steady activity in sectors like banking and infrastructure signaling continued investor

confidence in India's long-term growth story," Shanthi Vijetha, Partner, Growth, Grant Thornton Bharat.

M&A activity mirrored the overall market trend, with 197 deals worth \$5.4 billion—the lowest since Q2 2023. Only one billion-dollar deal was recorded (Sumitomo Mitsui Banking Corporation's \$1.57 billion investment in YES Bank), compared to four in Q1 2025.

However, June showed signs of recovery, posting the second-highest monthly IPO numbers and values for the year.

**ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED**  
(CIN: L24230GJ1995PLC025878)

Regd. Office : Zydus Corporate Park, Scheme No. 63, Survey No. 536, Near Valshrodevi Circle, Khora, (Gandhinagar), Sarkhej - Gandhinagar Highway, Ahmedabad - 382481. Website : www.zyduslife.com  
Email : companysecretary@zyduslife.com Telephone : +91-79-48540000

**NOTICE**

Notice is hereby given that the Company has received intimation from the following shareholder that the Share Certificate pertaining to the Equity Shares held by him as per the details given below have been lost / misplaced.

Sr. No.	Name of the shareholder	Distinctive Numbers	Folio Number	No. of Shares	Certificate No.
1.	Saurabh Himat Nandu	1034586 - 1035335	011812	750	800

If the Company does not receive any objection within 7 days from the date of publication of this notice, the Company will proceed to issue duplicate Share Certificate to the aforesaid shareholder. People are hereby cautioned not to deal with the above Share Certificate anymore and the Company will not be responsible for any loss / damage occurring thereby.

For, **ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED**  
Sd/- **DHAYAL N. SONI**  
COMPANY SECRETARY

Date : July 9, 2025  
Place : Ahmedabad

**IDBI BANK LTD.**  
Reg. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400005, CIN: L65190MH2004GO148638

**Transfer of Stressed Loan Exposure**

IDBI Bank Limited (Bank) intends to Transfer the Stressed Loan Exposure of Pathbreaking Projects Ltd (Erstwhile Abhiject Projects Ltd) to the ARCs/ SCBs (Transferee) on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "without recourse" basis. Bank is proposing to undertake Bidding Process in all cash basis to solicit binding bids in the form of irrevocable offers from ARCs/ SCBs in accordance with the regulatory guidelines issued by the RBI and all other relevant applicable laws.

For details please visit Bank's website [www.idbibank.in](http://www.idbibank.in). Click on Quick links> Notices & Tenders. For further details, you may contact at email: [assignment@idbi.co.in](mailto:assignment@idbi.co.in)

The Bank reserves the right not to go ahead with the proposed transfer at any stage without assigning any reason. Bank reserves the right to accept or reject any bids.

**General Manager**  
Corporate Office  
NPA Management Group

Place - Mumbai  
Date - 10.07.2025

**ASSAM ENTRADE LIMITED**  
Regd off: 16 TARA CHAND DUTTA STREET, 2ND FLOOR, KOLKATA-700073  
CIN: L21219WB1985PLC096557  
Email : [assamentrade1985@gmail.com](mailto:assamentrade1985@gmail.com) website: [www.assamentrade.com](http://www.assamentrade.com)

**NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Assam Enttrade Limited ("the Company") scheduled to be held on **Monday, 4th August, 2025 at 02:30 P.M. (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact businesses as set out in the Notice of 40th AGM which will be sent in due course of time. The venue of the meeting shall be deemed to be the Corporate Office of the company at 26/49, Birhana Road, Kanpur, Uttar Pradesh-208001.

Pursuant to the General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular issued by SEBI vide circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 ("SEBI Circular") and other applicable circulars and notifications issued (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time, companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM), without the physical presence of members at a common venue till 30th September, 2025. In compliance with the said Circulars, 40th AGM shall be conducted through VC / OAVM only.

**Service of Notice and Annual Report via e-mail:**

In Compliance with the above-mentioned circulars, electronic copies of the Notice convening the AGM along with Explanatory Statement pursuant to the provisions of Section 102 of the Companies Act, 2013 and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent within prescribed timelines by e-mail to all the members. Who have registered their email IDs with the Company/Ms. ABS Consultant Private Limited ("RTA") and Depository Participant(s) ("DPs"). The requirement of sending physical copies of the annual report has been dispensed with vide aforesaid MCA and SEBI Circulars. However, the physical copies of the Notice of 40th AGM along with the Annual Report shall be sent to the members who request the same at [assamentrade1985@gmail.com](mailto:assamentrade1985@gmail.com). The Notice of the AGM and Annual Report will also be available on the website of the Company i.e., [www.assamentrade.com](http://www.assamentrade.com), website of stock exchange i.e., at BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and on the website of NSDL ([www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)).

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 29th July, 2025 to Monday 4th August, 2025 (both days inclusive) for the purposes of 40th Annual General Meeting of the Company.

**Electronic Voting and Participation at the AGM:**

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and provisions of Regulation 44 of Listing Regulations, the members will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as set forth in the notice of the AGM through remote e-voting system.

Detailed instructions pertaining to a) Remote e-voting before the AGM, e-voting on the day of AGM and attending the AGM through VC/OAVM will be provided in Notice of the AGM.

**Manner of Registering / Updating e-mail address:**

Members of the Company holding shares in physical mode and who have not registered/updated their e-mail addresses can also attend the AGM and vote by following the procedure being provided in the Notice of AGM.

The Members of the Company who have not registered/updated their email address can register the same as per the following procedure:

- Members holding shares in physical form may get their email id registered by submitting the duly filled and signed Form-ISR 1 (available on the website of the Company) for updating their KYC details (if not already submitted) with necessary documents mentioned therein the form to our RTA at M/s ABS Consultant Private Limited, 99 Stephen House, 6th Floor, 4, B.B.D. Bag East, Kolkata-700001 Email: [absconsultant99@gmail.com](mailto:absconsultant99@gmail.com).
- Members holding shares in dematerialized form may also temporarily get their e-mail id registered by providing the Demat account details (CDSL-16 digits beneficiary ID or NSDL-16-digit DPID + CLID), name, client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN Card (Self Attested Copy), Aadhar Card (Self Attested Copy) to Company at [assamentrade1985@gmail.com](mailto:assamentrade1985@gmail.com)/ RTA e-mail id at [absconsultant99@gmail.com](mailto:absconsultant99@gmail.com). It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the Members are requested to register the same with their respective Depository Participant.

The Notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the applicable circulars of MCA and SEBI.

For **Assam Enttrade Limited**  
Sd/-  
(Arpita Sharma)  
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 10/07/2025  
Place: Kanpur

**KAMARAJAR PORT LIMITED**  
(A COMPANY OF CHENNAI PORT AUTHORITY)  
17, RAJAJI SALAI, CHENNAI-600001  
CIN: U45203TN1999PLC043322

**Term Loan Bidding Invitation**

Kamarajar Port Limited (KPL), a unit of Chennai Port Authority, intends to raise a term loan of Rs. 200 Crore for a Capital Dredging project through a competitive bidding process.

Eligible Scheduled Commercial Banks/Public Sector Financial Institutions/ Public Sector NBFCs are invited to participate.

For further details, please visit: [www.kamarajarport.gov.in/content/tender\\_detail.php](http://www.kamarajarport.gov.in/content/tender_detail.php)

**Kavita Satvi**  
GM (Fin) & CFO

**Welspun CORP WELSPUN CORP LIMITED**  
(Corporate Identification Number - L27100GJ1995PLC025609)  
Regd. Office: Welspun City, Village Versamed, Taluka Anjar, Dist. Kutch, Gujarat - 370110.  
Tel No. +91 2836 662222 Fax : +91 2836 279606.  
Corp. Office: Welspun House, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013. Tel No. 022 - 2490 8000. Fax: 022 - 2490 8020  
Company Secretary: [WCL@welspun.com](mailto:WCL@welspun.com) [www.welspuncorp.com](http://www.welspuncorp.com)

**NOTICE OF 30<sup>th</sup> Annual General Meeting and E-Voting Information**

Notice is hereby given that the 30<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 31<sup>st</sup> July, 2025 at 4:00 P.M. (IST) through Video Conference (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business set out in the Notice of the AGM.

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the rules made thereunder, provisions of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and the provisions of General Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 09/2024 dated 19<sup>th</sup> September, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 dated 3<sup>rd</sup> October, 2024 issued by SEBI.

In Compliance with the aforesaid circulars, the Notice of the 30<sup>th</sup> AGM along with the Annual Report for the financial year 2024-25 have been emailed only to those Members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s) ("Dps")/ Registrar and Transfer Agent.

The Notice of the AGM and Annual Report 2024-25 are available on the Company's website at [www.welspuncorp.com](http://www.welspuncorp.com), National Securities Depository Limited ("NSDL") Agency for providing the remote e-voting facility at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) and the website of Stock Exchanges i.e., BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

The Company is pleased to provide its Members, facility of remote e-voting through electronic voting services arranged by NSDL. E-voting shall also be made available to the Members participating in the AGM. In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 9<sup>th</sup> December, 2020, e-voting process will also be enabled for all 'individual demat account holders', by way of a single login credential, through their demat accounts / websites of NSDL and/or Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") or DPs. The process and manner for remote e-voting and voting at the AGM through various modes is provided in the Notice of the AGM and will also be made available on the Company's website [www.welspuncorp.com](http://www.welspuncorp.com).

Members attending the AGM through VC/OAVM and not having cast their vote on the resolutions forming part of the Notice through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting facility provided during the AGM. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The cut-off date for determining the eligibility of Members for remote e-voting and voting at the AGM is Thursday, 24<sup>th</sup> July, 2025.

The remote e-voting will start on Monday, 28<sup>th</sup> July, 2025 (9:00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 30<sup>th</sup> July, 2025 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module will be disabled thereafter. Once the vote is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. Thursday, 24<sup>th</sup> July, 2025, can obtain Login ID and password by sending a request at [www.evoting.nsdl.com](mailto:www.evoting.nsdl.com). However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

For **Welspun Corp Limited**  
Sd/-  
**Kamal Rath**  
Company Secretary

Mumbai, July 09, 2025

**UCO BANK**  
(A Govt. of India Undertaking)  
Head Office – II 3 & 4, DD Block, Sector – 1, Salt Lake, Kolkata-700064

**NOTICE INVITING TENDER**

UCO Bank invites tender for procurement of Cyber (Ransomware) Recovery Solution for Critical Applications through GEM Portal.

For more details, please visit <https://www.ucobank.com> and <https://gem.gov.in>

**Deputy General Manager**  
DIT - Procurement & Infrastructure

Date: 10.07.2025

**समयन आपके विश्वास का | Honours Your Trust**

**JINDAL PHOTO LIMITED**  
CIN: L33209UP2004PLC095076  
Regd. Off.: 19<sup>th</sup> K.M., Hapur-Bulandshahr Road, P.O. Gulaoti, Dist Bulandshahr (U.P.) - 203408  
Head Office : Plot No. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi- 110070  
Tel. No.: 011-40322110. Email : [cs\\_jphoto@jindalgroup.com](mailto:cs_jphoto@jindalgroup.com), Website : [www.jindalphoto.com](http://www.jindalphoto.com)

**NOTICE OF 22<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of **Jindal Photo Limited** ("the Company") will be held on **Thursday, July 31, 2025 at 02:00 p.m.** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM only through e-voting facility.

The AGM will be held only through VC/OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and in view of MCA General Circulars No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and Circular bearing No. 09/2024 dated September 19, 2024 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 & Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 and other applicable notifications in this regard permitted convening the Annual General Meeting ("AGM"/"Meeting") through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"). Facility for appointment of proxy will not be available for the AGM. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM along with the Annual Report 2024-25 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or CDSL/NSDL ("Depositories") and will also be available on the Company's website [www.jindalphoto.com](http://www.jindalphoto.com) and website of the Stock Exchanges i.e. at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Members who have not registered their email addresses and in consequence the Annual Report including Notice of AGM and e-voting instructions could not be serviced, may get their email address and mobile number registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, **MUFG Intime India Private Limited**, in the manner as provided in the Notice of the AGM, by sending an e-mail request at the email id [delhi@in.mpmf.mfg.com](mailto:delhi@in.mpmf.mfg.com) or [cs\\_jphoto@jindalgroup.com](mailto:cs_jphoto@jindalgroup.com) along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for obtaining the Annual Report, Notice of AGM and the e-voting instructions. The Company has sent web link of the Annual report through letters to the physical shareholders who have not updated their emails.

The Company has engaged the services of **MUFG Intime India Private Limited** as the authorized agency for conducting of the AGM electronically and for providing e-voting facility. The remote e-voting period will commence from 9.00 a.m. on Monday, July 28, 2025 and end on 5.00 p.m. on Wednesday, July 30, 2025. During this period the eligible shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The remote e-voting module will be disabled by MUFG Intime India Private Limited for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on July 30, 2025. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not casted their vote through remote e-voting. The Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and e-voting at the AGM is **Thursday, July 24, 2025**. Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to [enotices@in.mpmf.mfg.com](mailto:enotices@in.mpmf.mfg.com) or contact on - Tel: 022-49186000 to cast his/her vote. The detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is provided in the Notice of AGM.

In case shareholders/ members have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and InstaVote e-voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in> under Help section or send an email to [enotices@in.mpmf.mfg.com](mailto:enotices@in.mpmf.mfg.com) or contact on -Tel: 022-49186000.

Notice is also hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, July 25, 2025 to Thursday, July 31, 2025 both days inclusive, for the AGM.

By Order of the Board of Directors  
For **Jindal Photo Limited**  
Sd/-  
**Mukta Sharma**  
Company Secretary

Place : New Delhi  
Date : July 09, 2025

**FORM A**  
**PUBLIC ANNOUNCEMENT**  
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Code of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

**FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/S JHANDELWALS FOODS LIMITED**

**RELEVANT PARTICULARS**

- Name of corporate debtor: **M/s Jhandelwalas Foods Limited**
- Date of incorporation of corporate debtor: **14/08/2006**
- Authority under which corporate debtor is incorporated / registered: **RCC Jaipur**
- Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor: **L15209RJ2006PLC022941**
- Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor: **B-70, First Floor, Uppasana House, Janta Store, Bapu Nagar, Jaipur, Rajasthan- 302015**
- Insolvency commencement date in respect of corporate debtor: **04/07/2025 (Order Received on 09/07/2025)**
- Estimated date of closure of insolvency resolution process: **31/12/2025**
- Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional: **Mr. Mahesh Chandra Sharma EBB/IPA-003/N-00433/2023-2024/14287**
- Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board: **504, Trimurty Arambilla, Pani Poch, Near Desert Inn Resort, Jaipur, Rajasthan-302016 Email ID: [mschharma2002@yahoo.co.in](mailto:mschharma2002@yahoo.co.in)**
- Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional: **AAA House 64, Okhla Estate Phase III (Near Modi Mill), New Delhi- 110020 E-mail ID: [jhandelwalasfoods001@gmail.com](mailto:jhandelwalasfoods001@gmail.com)**
- Last date for submission of claims: **23/07/2025**
- Classes of creditors, if any, under clause (b) of subsection (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional: **Not Applicable**
- Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class): **Not Applicable**
- (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at: **Insolvency and Bankruptcy Board of India Not Applicable**

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Jaipur has ordered the commencement of a Corporate Insolvency Resolution Process of the M/s Jhandelwalas Foods Limited on 04/07/2025 (order received on 09.07.2025). The creditors of M/s Jhandelwalas Foods Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 23/07/2025 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 10/07/2025  
Place: New Delhi

Sd/-  
**Mr. Mahesh Chandra Sharma**  
Interim Resolution Professional  
In the matter of M/s Jhandelwalas Foods Limited [CP No. (IB)-26/9/JPR/2023]  
Registration No.: IBI/IPA-003/N-00433/2023-2024/14287  
AFA valid upto: 31/12/2025

**ASSAM ENTRADE LIMITED**  
Regd off: 16 TARA CHAND DUTTA STREET, 2ND FLOOR, KOLKATA-700073  
CIN: L21219WB1985PLC096557  
Email : [assamentrade1985@gmail.com](mailto:assamentrade1985@gmail.com) website: [www.assamentrade.com](http://www.assamentrade.com)

**NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Assam Enttrade Limited ("the Company") scheduled to be held on **Monday, 4th August, 2025 at 02:30 P.M. (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact businesses as set out in the Notice of 40th AGM which will be sent in due course of time. The venue of the meeting shall be deemed to be the Corporate Office of the company at 26/49, Birhana Road, Kanpur, Uttar Pradesh-208001.

Pursuant to the General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular issued by SEBI vide circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 ("SEBI Circular") and other applicable circulars and notifications issued (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time, companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM), without the physical presence of members at a common venue till 30th September, 2025. In compliance with the said Circular



